

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेतिया।

पत्रांक:- 393(अनु०) बेतिया दिनांक:- 08/02/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेतिया

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार, पटना।


विषय:- MMGSY योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की राशि के अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY योजना अंतर्गत संलग्न सूची के आधार पर पथ में निर्माण कार्य की राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु०- यथोक्त।


विश्वासभाजन


08/02/22
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेतिया

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, एम०एम०जी०एस०वाई०, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


08/02/22
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेतिया

Rural Works Department
MMGSY (GEN) Allotment Requisition Format

Name of Division :- Bettiah

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (In English)	Administrative Sanction		Agreement Value (in Lakh)		Allotment Received (in Lakh)	Total Expenditure as per MIS (in Lakh)		Value of Measurement (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
				Length (in KM)	Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2019-20	Shivraipur Ward No-11 Pitch to Sita Yadav ka Tola	Shani Kumar	1.020	77.500	74.64687	1.21926	32.71702	32.71702	70.12536	37.40834	Completed	
2	2019-20	Baghi to Ahir tola	Awadhesh Shukla	1.170	98.08000	92.31350	12.73089	45.48762	45.48762	54.80095	9.31333	Work in Progress	
3	2020-21	L065 to Kablapur Virta	MKG Construction	0.585	53.91000	51.10796	1.70140	13.45597	13.45597	51.07661	37.62064	Completed	
4	2019-20	Rampurwa to Pandey Tola	Raj Kishor Akela	1.500	84.289	80.99065	11.63769	0.00000	0.00000	26.08930	26.08930	Work in Progress	
Total				4.275	313.77900	299.05897	27.28923	91.66061	91.66061	202.09222	110.43161		

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Bettiah

(Signature)
8/10/22

FORM GFR 19A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of Utilisation Certificate up to the month of Jan-2022
MUKHYA MANTRI GRAM SAMPARK YOJANA (GEN)

Sl. No.	Name of Scheme	Selection No. of Date with Amount (in Rs. In Lacs)	Amount Received (In Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MMGSY (GEN)	MMGSY (Gen) Allotment	4187.01581	Certified that out of Rs.4187.01581 Lacs received favour of Executive Engineer, R.W.D. Works Division, Bettiah. A sum of Rs. <u>3825.49720</u> Lacs has been utilised for the purpose of MMGSY (GEN) Scheme as given in the margin or whichever sanctioned and that the balance Rs. <u>361.51861</u> Lacs remaining unutilised at the end of the period under.
		Expenditure	3825.49720	
		Balance	361.51861	

- 2 - Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of exercised :-

- (i) Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- (iii) Construction Material have been testes.
- (iv) Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- (v) All other codal formalities have been observed.

- 3 Physical Progress achieved :-

- (i) Construction of Road Works.
- (ii) Construction of CD Works.

8.2.22
D.A.O.

Rural Works Department,
Works Division, Bettiah

08/04/22
Executive Engineer,

Rural Works Department,
Works Division, Bettiah